संबद्ध के संख्या हात्वा की संख्या हात्वा वा हात्वा की सहस्या हात्वा का मार्ग मार्ग की सहस्या हात्वा की सहस्या हात्वा का मार्ग मार्ग हात्वा को सहस्या हात्वा का मार्ग मार्ग हात्वा का मार्ग मार्ग हात्वा हात्वा के हिए का मार्ग हात्वा हात्वा के हिए का मार्ग हात्वा हात्वा हो सहस्या हात्वा का मार्ग मार्ग हात्वा हात्वा हो सहस्या के हिए का मार्ग हात्वा हो सहस्या हात्वा हात्वा हो सहस्या के हिए का मार्ग हात्वा हो सहस्या हो सहस्य हो हो सहस्य हो हो सहस्य हो हो सहस्य हो सहस्य हो सहस्य हो हो सहस्य हो सहस्य हो हो सहस्य हो सहस्य हो हो सहस्य हो हो सहस्य हो सहस्य हो सहस्य हो हो हो हो सहस्य हो
Branch No. विनांक Date ग्राहक सूचना फार्म (सिर्फ नये गैर-वैयक्तिक ग्राहकों के लिए) CUSTOMER INFORMATION FORM (FOR NEW NON PERSONAL CUSTOMERS ONLY) कृपया फार्म को बड़े अक्षरों में भरें, हस्ताक्षर के लिए काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें, जहां लागू हो, उचित खाने में (/) लगाएं. Please fill in CAPITAL letters and use black ball point pen for signature. Please tick (/) the appropriate boxes. (1) खाते का नामः/NAME OF THE ACCOUNT: (2) ग्राहक का प्रकार/CUSTOMER TYPE: एकल स्वामित्व भगागीदारी फार्म एल एल पी ग्राइबेट लि. कं. पब्लिक लि. कं. Public Ltd Co. प्यास चलब/एसोसिएसन/सोसावटी/एसएबजी एखपुएक Lucal Bodies/Govt Dept. Others (Pl. specify) (3) ग्राहक पैन/जीजाईआर सं. प्रजाप प्रवाद प्रवा
Date प्राहक सूचना फार्म (सिर्फ नये गैर – वैयक्तिक ग्राहकों के लिए) CUSTOMER INFORMATION FORM (FOR NEW NON PERSONAL CUSTOMERS ONLY) कृपया फार्म को बड़े अक्षरों में भरें, हस्ताक्षर के लिए काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें, जहां लागू हो, जिवत खाने में (') लगाएं. Please fill in CAPITAL letters and use black ball point pen for signature. Please tick (') the appropriate boxes. (1) खाते का नामः/NAME OF THE ACCOUNT: प्रकल का प्रकार/CUSTOMER TYPE: पुळल स्वाधित्व भागीदारी फर्म एल एल पी प्राइवेट लि. कं. पब्लिक लि. कं. Public Ltd Co. प्राहक के प्रकार स्वाधित्व भागीदारी फर्म एल एल पी प्राइवेट लि. कं. Public Ltd Co. प्राहक के प्रकार स्वाधीत्व भागीदारी फर्म एल एल पी प्राइवेट लि. कं. पब्लिक लि. कं. Public Ltd Co. प्राहक के प्रितकाल स्वाधीत्व प्रवाधीत्व स्वाधीत्व एल एल पी प्राइवेट लि. कं. पब्लिक लि. कं. Public Ltd Co. प्राहक के प्रतिक्र के लिए फर्म के प्रविक्र के स्वाधीत
CUSTOMER INFORMATION FORM (FOR NEW NON PERSONAL CUSTOMERS ONLY) कृपया फार्म को बड़े अक्षरों में भरें, हस्ताक्षर के लिए काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें, जहां लागू हो, जियत खाने में (*) लगाएं. Please fill in CAPITAL letters and use black ball point pen for signature. Please tick (*) the appropriate boxes. (1) खातें का नामः/NAME OF THE ACCOUNT: (2) ग्राहक का प्रकार/CUSTOMER TYPE: एकल स्वामित्व भागीदारी फर्म प्रलाप पी प्राइवेट लि. कं. पब्लिक लि. कं. Partnership Firm एल एल पी प्राइवेट लि. कं. Public Ltd Co. प्राहक का फोटोग्राफ विपकाएं AFFIX PHOTOGRAPH OF THE CUSTOMER (2) ग्राहक का प्रकार/CUSTOMER TYPE: एक एल पी प्राइवेट लि. कं. पब्लिक लि. कं. Prvt. Ltd. Co. Public Ltd Co. Public Ltd Co. Public Ltd Co. Trust विलाव (कृपया स्वष्ट करें) (3) ग्राहक पैन/जीआईआर सं. या/प्रस्तुत फॉर्म 60/61 प्राप्ट प्राप्ट (4) पत्र व्यवहार के लिए फर्म, कंपनी, इ. का पता / MAILING ADDRESS OF FIRM, COMPANY ETC.: पकान/दुकान क्र. अपार्टमेन्ट/बिल्डिंग का नामः Apartment/Building Name: प्राह्म, गाँवः प्रवास विन्हः प्रवास विन्नः प्रवास विन्हः प्रवास विन्हः प्रवास विन्नः प्रवास विन्हः प्
Please fill in CAPITAL letters and use black ball point pen for signature. Please tick (У) the appropriate boxes. (1) खाते का नामः/NAME OF THE ACCOUNT: (2) ग्राहक का प्रकल रवामित्व पकल रवामित्व भागीदारी फर्म Partnership Firm LLP Pyt. Ltd. Co. Public Ltd Co. Public Ltd Co. Public Club/Association/Society/SHG HUF Local Bodies/ Govt Dept. (3) ग्राहक पेन/जीआईआर सं. Customer PAN/GIR No.: (4) पत्र व्यवहार के लिए फर्म, कंपनी, इ. का पता /MAILING ADDRESS OF FIRM, COMPANY ETC.: पकला-/दुकान क्र. House/Shop No. Apartment/Building Name: Public Ltd Co. Public L
(1) खाते का नामः/NAME OF THE ACCOUNT: विपकाएं AFFIX PHOTOGRAPH OF THE CUSTOMER TYPE: एकल स्वामित्व भागीदारी फर्म Partnership Firm एल एल पी प्राइवेट लि. कं. Public Ltd Co. प्राइक वेन /जीआईआर सं. (कृपया स्पष्ट करें) (Lub/Association/Society/SHG HUF Local Bodies/ Govt Dept. Others (Pl. specify)
(2) ग्राहक का प्रकार/CUSTOMER TYPE: एकल स्वामित्व भागीदारी फर्म एल एल पी प्राइवेट लि. कं. पब्लिक लि. कं. Public Ltd Co. प्राहक के प्रकार / एल एल पी प्राइवेट लि. कं. Public Ltd Co. Public Ltd
(2) प्राहक का प्रकार / CUSTOMER TYPE : प्रकल स्वामित्व भागीदारी फर्म प्रलप्त पी प्राइवेट लि. कं. प्रक्लिक लि. कं. Sole Proprietorship Partnership Firm LLP Pvt. Ltd. Co. Public Ltd Co. प्यास क्लब / एसोसिएशन / सोसायटी / एसएचजी प्रवयूएफ HUF Local Bodies / Govt Dept. Others (Pl. specify) (3) प्राहक पैन / जीआईआर सं. Club/Association/Society/SHG HUF Local Bodies / Govt Dept. Others (Pl. specify) (4) पत्र व्यवहार के लिए फर्म, कंपनी, इ. का पता / MAILING ADDRESS OF FIRM, COMPANY ETC. : पकान / दुकान क्र. अपार्टमेन्ट / विल्डिंग का नाम: Apartment/Building Name: पहचान विन्ह: Landmark: शहर / गाँव: जिला: District: राज्य: देश:
एकल स्वामित्व भागीदारी फर्म Partnership Firm LLP Pvt. Ltd. Co. Public Ltd Co. च्यास वलब/एसोसिएशन/सोसायटी/एसएवजी एचयूएफ स्थानीय निकाय/सरकारी विभाग अन्य (कृपया स्पष्ट करें) Club/Association/Society/SHG HUF Local Bodies/ Govt Dept. (3) ग्राहक पैन/जीआईआर सं. Customer PAN/GIR No.: (4) पत्र व्यवहार के लिए फर्म, कंपनी, इ. का पता / MAILING ADDRESS OF FIRM, COMPANY ETC.: मकान/दुकान क्र. House/Shop No. Apartment/Building Name: पहचान विन्हः Landmark: शहर/गाँवः City/Village: राज्यः प्रिम कोडः पिन कोडः पिन कोडः
Sole Proprietorship Partnership Firm LLP Pvt. Ltd. Co. Public Ltd Co. च्यास क्लब/एसोसिएशन/सोसायटी/एसएचजी एचयूएफ स्थानीय निकाय/सरकारी विभाग अन्य (कृपया स्पष्ट करें) Trust Club/Association/Society/SHG HUF Local Bodies/ Govt Dept. (3) ग्राहक चैन/जीआईआर सं. Customer PAN/GIR No.: (4) पत्र व्यवहार के लिए फर्म, कंपनी, इ. का पता / MAILING ADDRESS OF FIRM, COMPANY ETC.: #कान/दुकान क. House/Shop No. #मार्ग / गली/लेन: Road/Street/Lane: शहर/गाँव: City/Village: प्राज्य: प्राज
Trust Club/Association/Society/SHG HUF Local Bodies/ Govt Dept. Others (Pl. specify) (3) ग्राहक पैन/जीआईआर सं. Customer PAN/GIR No.: (4) पत्र व्यवहार के लिए फर्म, कंपनी, इ. का पता / MAILING ADDRESS OF FIRM, COMPANY ETC.: मकान/दुकान क्र. House/Shop No. मार्ग /गली/लेनः Road/Street/Lane: शहर/गाँवः City/Village: रेशः
Customer PAN/GIR No.: (4) पत्र व्यवहार के लिए फर्म, कंपनी, इ. का पता /MAILING ADDRESS OF FIRM, COMPANY ETC.: मकान/दुकान क्र. House/Shop No. पार्ग /गली/लेनः Road/Street/Lane: शहर/गाँवः City/Village: पेन कोडः
मकान/दुकान क्र. House/Shop No. मार्ग / गली / लेन: Road/Street/Lane: शहर / गाँव: City/Village: राज्य: अपार्टमेन्ट / बिल्डिंग का नाम:
House/Shop No. Apartment/Building Name: पहचान चिन्हः Landmark: शहर/गाँवः City/Village: पंजयः पेन कोडः
Road/Street/Lane: शहर/गाँव: City/Village: राज्य: पिन कोड:
City/Village: District: पाज्य: देश: पिन कोड:
1,000
दूरभाष सं. (एसटीडी / आईएसडी कोड के साथ): Phone No. (With STD/ISD code): \$\text{\$\text{h}\$} \text{price} \text{\$\text{h}\$} \text{\$\text{ord}\$} \text{\$\text{h}\$} \text{\$\text{ord}\$} \text{\$\text{h}\$} \text{\$\text{ord}\$}
मोबाईल सं.: Mobile No. : ई-मेल आईडी: e-mail ID:
(5) फर्म, कंपनी इ. का पंजीकृत पता /REGISTERED OFFICE ADDRESS OF THE FIRM/COMPANY ETC:
मकान/दुकान क्र. House/Shop No.
मार्ग / गली / लेनः Road/Street/Lane: Landmark:
शहर/गाँवः जिलाः जिलाः
City/Village: District: पन कोड:
State: Pin Code:
दूरभाष सं. (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ): Phone No. (With STD/ISD code):
मोबाईल सं.: Mobile No. :
(6) राष्ट्रीयता /NATIONALITY:
भारतीयः अन्य कोई हो, तो स्पष्ट करें: Other please specify:
(7) A) स्थापना की तिथि: DATE OF ESTABLISHMENT: B) व्यवसाय के प्रारंभ की तिथि: C) ट्रेड लाइसेंस क्र.: TRADE LICENSE NO.:
SALE OF ESTABLISHMENT. SALE OF COMMUNICATION OF BOSINESS. TRADE LICENSE NO.
(8) निवासी / RESIDENT:
निवासी भारतीयः अनिवासी भारतीयः अन्य कोई हो, तो स्पष्ट करें: Perident Indian: NRI: Other places specify:

(9)	केवायसी विवरण/ KYC	DETAILS:			
पहचान के प्रमाण का विवरण/Proof of Identity Details					
दस्तावेज का नामः Name of Document:					
दस्तावेज संख्याः Document No.:		जारीकर्ता: Issued by:			
जारी करने का स्थानः Place of Issue:		जारी तिथिः Issued Date:	दिन माह वर्ष Day Month Year		
दस्तावेज का नामः Name of Document:					
दस्तावेज संख्याः Document No.:		जारीकर्ता: Issued by:			
जारी करने का स्थानः Place of Issue:		जारी तिथिः Issued Date:	दिन माह वर्ष Day Month Year		
दस्तावेज का नामः Name of Document:					
दस्तावेज संख्याः Document No.:		जारीकर्ता: Issued by:			
जारी करने का स्थानः Place of Issue:		जारी तिथिः Issued Date:	दिन माह वर्ष Day Month Year		
दस्तावेज का नामः Name of Document:					
दस्तावेज संख्याः Document No.:		जारीकर्ता: Issued by:			
जारी करने का स्थानः Place of Issue:		जारी तिथिः Issued Date:	दिन माह वर्ष Day Month Year		
दस्तावेज का नामः Name of Document:					
दस्तावेज संख्याः Document No.:		जारीकर्ता: Issued by:			
जारी करने का स्थानः Place of Issue:		जारी तिथिः Issued Date:	दिन माह वर्ष Day Month Year		
पते के प्रमाण का विवरण/Proof of Address Details					
दस्तावेज का नामः Name of Document:					
दस्तावेज संख्याः Document No.:		जारीकर्ताः Issued by:			
जारी करने का स्थानः Place of Issue:		जारी तिथिः Issued Date:	दिन माह वर्ष Day Month Year		
	का जन्म तिथि का प्रमाण (दस्तावेजों के नाम): of Minor/Senior Citizen (Name of the Documents):				

		·			
. स्वामित्व संस्था के स्वामी द्वारा / By Propi	rietor of Proprietorship Firm: यह संस्था उ				
के नाम से जानी जाती है, आपके बैंक से व्यवहार करना/करनी चाहता/चाहती हूं. मैं आपको यह घोषित करना/करर्न बाहता/चाहती हूं कि मैं, अधोहस्ताक्षरी, उक्त संस्था का/की एकल स्वामी हूं और कोई भी व्यक्ति की उसमें भागीदार के रूप में या अन्यथा दिलचस्पी नहीं है. मैं आगे यह भी सूचित करता/करती हूं कि यदि उक्त संस्था के गठन में कोई परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी/propose to have dealing with your Bank. I beg to declare that					
	the constitution of the said concern.	r person is interested in it as partner c	or otherwise. I further undertake to info		
		स्वामी के हस्ताक्षर /Signat	ure of the Proprietor		
भागीदारी संस्था के भागीदार द्वारा / By pai	rtner of the Partnership Firm: यह फार्म / <i>I</i>				
			भागीदार हैं. हम संस्था के देयताओं के लिए बैंक		
	**		तक भागीदार की संपत्ति से करने हेतु, प्राधिकार		
-		_	। वाले किसी भी परिवर्तन की सूचना देंगे और हम		
			ur Bank we beg to inform you that we t		
			lities of the firm. We authorize the Bank		
		•	ment of any of partner Bank may contin		
		f any change in our partnership & o	ur liability shall continue until we get t		
Acknowledgment from the Bank o	r such changes.				
भागीदार 1/Partner 1	भागीदार 2/Partner 2	भागीदार 3/Partner 3	भागीदार 4/Partner 4		
	सभी वयस्क भागीदारो के हस्ताक्षर/	Signature of All Major Partners			
	aर्ष Year				
Date: Day Mor	nth Year				
Day Mon / हम घोषणा करता / करती / करते हूं / हैं कि	: I/We affirm & declare that:				
Day Moo $/ $ हम घोषणा करता $/ $ करती $/ $ करते हूं $/ $ हें कि $/ $ मैंने $/ $ हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें	nth Year : I/We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में स				
Pate: Day Mol / हम घोषणा करता / करती / करते हूं / हैं कि मैंने / हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें I/We have read over and understo	nth Year : I/We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing				
Day Mol /हम घोषणा करता/करती/करते हूं/हैं कि मैंने/हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें I/We have read over and understo मैं/हम बैंक के नियमों, पद्धति तथा मानव	nth Year : I/We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे.				
Pate: Day Mol /हम घोषणा करता/करती/करते हूं/हैं कि मैंने/हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें I/We have read over and understo मैं/हम बैंक के नियमों, पद्धति तथा मानव	nth Year : I/We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र nod and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank.	rules and regulation of the Bank and	d as would be amended in future.		
Pate: Day Mol /हम घोषणा करता/करती/करते हूं/हैं कि मैंने/हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें I/We have read over and understo मैं/हम बैंक के नियमों, पद्धति तथा मानव I/We shall abide by the rules, cust व्यवसाय के सामान्य दायरे में की गई कि	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र vod and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा.		
Pate: Day Mol / हम घोषणा करता / करती / करते हूं / हैं कि मैंने / हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें I/We have read over and underston मैं / हम बैंक के नियमों, पद्धति तथा मानव I/We shall abide by the rules, cust व्यवसाय के सामान्य दायरे में की गई कि Bank or its agent shall not be liab	nth Year : I/We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र nod and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank.	rules and regulation of the Bank and सान / क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा.		
Pate: Day Mol /हम घोषणा करता / करती / करते हूं / हैं कि मैंने / हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें I/We have read over and underston मैं / हम बैंक के नियमों, पद्धति तथा मानव I/We shall abide by the rules, cust व्यवसाय के सामान्य दायरे में की गई कि Bank or its agent shall not be liab यदि सांविधिक प्राधिकारी को किसी लेनवे	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र vod and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी.	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business.		
pate: Day Mol /हम घोषणा करता / करती / करते हूं / हैं कि मैंने / हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें I/We have read over and understor मैं / हम बैंक के नियमों, पद्धति तथा मानव I/We shall abide by the rules, cust व्यवसाय के सामान्य दायरे में की गई कि Bank or its agent shall not be liab यदि सांविधिक प्राधिकारी को किसी लेनवें I/We shall not have any objection	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र राज्य and agree to abide by the existing रण्डों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me रान संबंधित जानकारी की सूचना दी जाती है,	rules and regulation of the Bank and सान /क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे / हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. n is appraised to the statutory autho	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business. ority.		
Pate: Day Mol / हम घोषणा करता / करती / करते हूं / हैं कि मैंने / हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें I/We have read over and underston मैं / हम बैंक के नियमों, पद्धति तथा मानव I/We shall abide by the rules, custon व्यवसाय के सामान्य दायरे में की गई कि Bank or its agent shall not be liab यदि सांविधिक प्राधिकारी को किसी लेनवे I/We shall not have any objection मैं / हम पुष्टि करता / करते हैं कि उपर्युक्त	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा / रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे / हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me न संबंधित जानकारी की सूचना दी जाती है, if any transaction / related informatio	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे /हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. n is appraised to the statutory autho ान से सत्य एवं सही है और कोई भी जानक	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business. prity. ारी छुपायी नहीं गई है.		
Pate: Day Molorer Day Molorer घोषणा करता / करती / करते हूं / हैं कि मैंने / हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें ।/We have read over and underston में / हम बैंक के नियमों, पद्धति तथा मानव ।/We shall abide by the rules, cust व्यवसाय के सामान्य दायरे में की गई कि Bank or its agent shall not be liab यदि सांविधिक प्राधिकारी को किसी लेनवें।/We shall not have any objection में / हम पुष्टि करता / करते हैं कि उपर्युक्त ।/We verify that the fact stated he	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me न संबंधित जानकारी की सूचना दी जाती है, if any transaction / related informatio सूचित तथ्य एवं घोषणा मेरे/हमारे सर्वोत्तम इ re in above are true and correct to the	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. n is appraised to the statutory autho ान से सत्य एवं सही है और कोई भी जानक best of my/our knowledge and noth	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business. ority. ारी छुपायी नहीं गई है. ning has been concealed.		
Pate: Day Mol / हम घोषणा करता / करती / करते हूं / हैं कि मैंने / हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें I/We have read over and underston मैं / हम बैंक के नियमों, पद्धति तथा मानव I/We shall abide by the rules, custon व्यवसाय के सामान्य दायरे में की गई कि Bank or its agent shall not be liab यदि सांविधिक प्राधिकारी को किसी लेनवे I/We shall not have any objection मैं / हम पुष्टि करता / करते हैं कि उपर्युक्त	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me ान संबंधित जानकारी की सूचना दी जाती है, if any transaction / related informatio सूचित तथ्य एवं घोषणा मेरे/हमारे सर्वोत्तम इ re in above are true and correct to the	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे /हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. n is appraised to the statutory autho ान से सत्य एवं सही है और कोई भी जानक	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business. ority. ारी छुपायी नहीं गई है.		
Pate: Day Molorer Day Molorer Day Molorer Day Molorer Day Day Molorer Day	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me ान संबंधित जानकारी की सूचना दी जाती है, if any transaction / related informatio सूचित तथ्य एवं घोषणा मेरे/हमारे सर्वोत्तम इ re in above are true and correct to the	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. n is appraised to the statutory autho ान से सत्य एवं सही है और कोई भी जानक best of my/our knowledge and noth	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business. ority. गरी छुपायी नहीं गई है. ning has been concealed.		
Pate: Day Molorer Molorer Day Molorer Day Molorer Day Molorer Day Molorer Day Day Molorer Day	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me ान संबंधित जानकारी की सूचना दी जाती है, if any transaction / related informatio सूचित तथ्य एवं घोषणा मेरे/हमारे सर्वोत्तम इ re in above are true and correct to the	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. n is appraised to the statutory autho ान से सत्य एवं सही है और कोई भी जानक best of my/our knowledge and noth	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business. ority. गरी छुपायी नहीं गई है. ning has been concealed.		
Pate: Day Mol /हम घोषणा करता/करती/करते हूं/हैं कि मैंने/हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें !/We have read over and underston मैं/हम बैंक के नियमों, पद्धति तथा मानव !/We shall abide by the rules, custon व्यवसाय के सामान्य दायरे में की गई कि Bank or its agent shall not be liable यदि सांविधिक प्राधिकारी को किसी लेनवे !/We shall not have any objection मैं/हम पृष्टि करता/करते हैं कि उपर्युक्त !/We verify that the fact stated he	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me ान संबंधित जानकारी की सूचना दी जाती है, if any transaction / related informatio सूचित तथ्य एवं घोषणा मेरे/हमारे सर्वोत्तम इ re in above are true and correct to the	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. n is appraised to the statutory autho ान से सत्य एवं सही है और कोई भी जानक best of my/our knowledge and noth	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business. ority. गरी छुपायी नहीं गई है. ning has been concealed.		
Pate: Day Mol /हम घोषणा करता/करती/करते हूं/हैं कि मैंने/हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें !/We have read over and underston मैं/हम बैंक के नियमों, पद्धति तथा मानव !/We shall abide by the rules, custon व्यवसाय के सामान्य दायरे में की गई किर Bank or its agent shall not be liable यदि सांविधिक प्राधिकारी को किसी लेनवे !/We shall not have any objection मैं/हम पृष्टि करता/करते हैं कि उपर्युक्त !/We verify that the fact stated he	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me ान संबंधित जानकारी की सूचना दी जाती है, if any transaction / related informatio सूचित तथ्य एवं घोषणा मेरे/हमारे सर्वोत्तम इ re in above are true and correct to the	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. n is appraised to the statutory autho ान से सत्य एवं सही है और कोई भी जानक best of my/our knowledge and noth	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business. ority. गरी छुपायी नहीं गई है. ning has been concealed.		
Pate: Day Mol /हम घोषणा करता / करती / करते हूं / हैं कि मैंने / हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें !/We have read over and underston मैं / हम बैंक के नियमों, पद्धित तथा मानव !/We shall abide by the rules, custon व्यवसाय के सामान्य दायरे में की गई कि Bank or its agent shall not be liable यदि सांविधिक प्राधिकारी को किसी लेनवे !/We shall not have any objection मैं / हम पुष्टि करता / करते हैं कि उपर्युक्त !/We verify that the fact stated he सभी हस्ताक्षरकर्ताओं Names of All Sign	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me ान संबंधित जानकारी की सूचना दी जाती है, if any transaction / related informatio सूचित तथ्य एवं घोषणा मेरे/हमारे सर्वोत्तम इ re in above are true and correct to the	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. n is appraised to the statutory autho ान से सत्य एवं सही है और कोई भी जानक best of my/our knowledge and noth	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business. ority. ारी छुपायी नहीं गई है. ning has been concealed.		
Pate: Day Mol /हम घोषणा करता/करती/करते हूं/हैं कि मैंने/हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें !/We have read over and underston मैं/हम बैंक के नियमों, पद्धति तथा मानव !/We shall abide by the rules, custon व्यवसाय के सामान्य दायरे में की गई कि Bank or its agent shall not be liable यदि सांविधिक प्राधिकारी को किसी लेनवे !/We shall not have any objection मैं/हम पृष्टि करता/करते हैं कि उपर्युक्त !/We verify that the fact stated he	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me ान संबंधित जानकारी की सूचना दी जाती है, if any transaction / related informatio सूचित तथ्य एवं घोषणा मेरे/हमारे सर्वोत्तम इ re in above are true and correct to the	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. n is appraised to the statutory autho ान से सत्य एवं सही है और कोई भी जानक best of my/our knowledge and noth	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business. ority. गरी छुपायी नहीं गई है. ning has been concealed.		
Pate: Day Mol	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me ान संबंधित जानकारी की सूचना दी जाती है, if any transaction / related informatio सूचित तथ्य एवं घोषणा मेरे/हमारे सर्वोत्तम इ re in above are true and correct to the	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. n is appraised to the statutory autho ान से सत्य एवं सही है और कोई भी जानक best of my/our knowledge and noth	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business. ority. गरी छुपायी नहीं गई है. ning has been concealed.		
Pate: Day Mol /हम घोषणा करता / करती / करते हूं / हैं कि मैंने / हमने बैंक के नियम पढ़े हैं एवं उन्हें वि I/We have read over and underston मैं / हम बैंक के नियमों, पद्धित तथा मानव I/We shall abide by the rules, custon व्यवसाय के सामान्य दायरे में की गई कि Bank or its agent shall not be liable यदि सांविधिक प्राधिकारी को किसी लेनवे I/We shall not have any objection मैं / हम पुष्टि करता / करते हैं कि उपर्युक्त I/We verify that the fact stated he सभी हस्ताक्षरकर्ताओं Names of All Sign .	nth Year I / We affirm & declare that: समझा है तथा बैंक के वर्तमान एवं भविष्य में र ood and agree to abide by the existing एडों से बाध्य रहूंगा/रहेंगे. oms and norms of the Bank. सी कार्रवाई के कारण मुझे/हमें हुई किसी नुक le for any loss/damage incurred to me ान संबंधित जानकारी की सूचना दी जाती है, if any transaction / related informatio सूचित तथ्य एवं घोषणा मेरे/हमारे सर्वोत्तम इ re in above are true and correct to the	rules and regulation of the Bank and सान/क्षति के लिए बैंकया उसका एजेंट जिम् /us for any action done in ordinary c तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. n is appraised to the statutory autho ान से सत्य एवं सही है और कोई भी जानक best of my/our knowledge and noth	d as would be amended in future. मेदार नहीं होगा. ourse of business. ority. ारी छुपायी नहीं गई है. ning has been concealed.		

4.

साक्षात्कार एवं अपेक्षित ग्राहक सचेतन फार्म (आवेदक / हस्ताक्षरकर्ता के प्रयोग के लिए) INTERVIEW AND CUSTOMER DUE DILIGENCE FORM (TO BE USED FOR APPLICANT/SIGNATORY) केवल बैंक प्रयोग हेतू / For Bank use only: क्रियाकलाप का स्वरूप/LINE OF ACTIVITY कियाकलाप का प्रकार सेवा का प्रकार उत्पादन ट्यापार वस्तु का प्रकार सेवाएं Manufacturing Nature of Activity Trading Nature of Comodity Services Nature of Services व्यावसायिक व्यवसाय का स्वरूप गैर-वाणिज्यिक क्रियाकलाप का प्रकार Professional Non Commercial Nature of Activity **Nature of Profession** क्या धन सेवा ब्यूरो का कार्य करते है? क्या भवन निर्माता या विकासक है? क्या पुरातन वस्तुओं के विक्रेता है? क्या शस्त्रों के विकेता है? Whether conducting money service Bureau? Whether antique dealers? Whether builders or developers? Whether dealers in arms? क्या क्रियाकलाप में निर्यात शामिल हैं? यदि हां, तो देशों के नाम क्या क्रियाकलाप में आयात शामिल हैं? यदि हां, तो देशों के नाम Whether activity includes export? If Yes, names of countries Whether activity includes Import? If Yes, names of countries क्या राजनीतिक दल है? क्या उच्च शुद्ध मालियत वाले व्यक्ति है? यदि हां तो आय/संपत्ति कर विवरणी दें. Whether political party? High Net worth Individuals? If yes, provide Income/Wealth Tax returns क्या बुलियन/जेवरात के विक्रेता है? क्या ईक्विटी/सट्टेबाजी जैसे क्रियाकलाप करते हैं? Whether Bullion/Jewellery Dealers Whether trading in equities / speculative activity क्या कम्पनी के पास नजदीकी परिवार की शेयर धारिता अथवा लाभार्जन स्वामित्व है? यदि हाँ, तो अलग कागज पर पूर्ण जानकारी दें. क्या भागीदारी संस्था निष्क्रिय भागीदारों के साथ हैं? यदि हाँ तो अलग कागज पर पूर्ण जानकारी दें./Companies having close family Share holdings or beneficial ownership? If yes, provide details on separate sheet Partnership firms with sleeping partners? If yes, provide details on separate sheet सेन्टल बैंक ऑफ इंडिया/अन्य बैंक के साथ खाता/Account with Central Bank/Other Bank Accounts बैंक खाता का पकार शाखा Rank Branch Type of Account बैंक शाखा खाता का प्रकार Bank Type of Account **Branch** आवेदनकर्ता के आय संबंधी जानकारी/Information about Income of the Applicant: बिक्री व्यवसाय टर्नओवर ₹ वार्षिक आय ₹ शुद्ध मालियत ₹ Sales Business Turnover ₹ Annual Income ₹ Net worth पिछले दो वर्ष में प्रदत्त आयकर < ₹ 10000 ₹ 10000 - 50000 ₹ 50000 - 1 lac >₹ 1 lac Income Tax paid during the last two years आवेदक की जानकारी / APPLICANT INFORMATION: एएमएल/AML: एक वर्ष में अपेक्षित जमा (देशीय/विदेशी) < ₹1 lac < ₹5 lac < ₹ 10 lac >₹ 10 lac Credit Expected in a year (Inland/Foreign) के वाय सी/ए एम एल जोखिम वर्गीकरण मध्यम बदा **KYC/AML** risk classification Medium High खाता जानकारी का सत्यापन / Verification of Account Information: पैन की पृष्टि www. Incometaxindia.gov.in वेबसाइट से की गई आवेदक के नाम की जांच संदेहास्पद व्यक्तियों की सूची से करना PAN Verified from www.Incometaxindia.gov.in Applicant's name checked with Suspicious entities list अधिकारी / शाखा प्रबंधक के निर्णय / Decision of the Officer/Branch Manager आवेदक केवायसी अनुपालनकर्ता हैं बचत खाता चालू खाता मीयाटी जमा खाता खोलने की अनुमति दी गई Saving Bank Account Current Account The applicant is KYC compliant Permitted to open Account **Term Deposit** दिनांक Date स्थान अधिकारी/शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर / Signature of Officer/Branch Manager Place कार्यालयीन प्रयोग के लिए/FOR OFFICE USE: • ग्राहक पहचान एवं निवास प्रमाण की प्रतियाँ मूल दस्तावेजो के साथ उनकी जांच की गईं तथा बैंक की मृहर और अधिप्रमाणन से प्रमाणित की गई. / Copies of the customer identification and residence proof are cross checked with original documents & certified by putting bank's seal & authentication. श्री/स्श्री (अधिकारी) (पदनाम) द्वारा दिनांक_ के स्थान/निवास (आवश्यकता के मामले में) की प्रत्यक्ष जांच की गई/Location/Residence of the applicant (in case of need) has been verified by Mr./Mrs. (officer) (Designation) on

अधिकारी /शाखा प्रबंधक का नाम Name of Officer/Branch Manager अधिकारी / शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर और इन्डेक्स सं. Signature of Officer /Branch Manager & Index No.